

JAY USHIN LIMITED (A Joint Venture With USHIN LTD. JAPAN)

G.P. 14, HSIIDC INDL. ESTATE, SECTOR-18, GURGAON - 122 001 HARYANA (INDIA) Phone : 0124-4623400 Fax : 0124-4623403 E-mail : info@jushinindia.com Website : www.jpmgroup.co.in CIN : L52110DL1986PLC025118

February 16, 2023

To BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001.

Script Code: 513252

<u>Subject: Submission of advertisement for publication of Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended December 31, 2022</u>

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copy of advertisement for Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022, published in Financial Express (English Newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper) on February 15, 2023 are enclosed.

The Unaudited Financial Results for the quarter ended December 31, 2022 are approved by the board of director in its meeting held on February 14, 2023.

Thanking You,

Yours Faithfully Jay Ushin Limited

Digitally signed by JYOTI KATARIA
DNt. c=IM, onPersonal,
postatiCode = 124109, st=Haryana,
serialNumber=69176828450E82E550
7A77A980E140505E02C657200BF5
A0A94807861772E, cn=JYOTI KATARIA
Date: 202.1302.1615622.38-4953V

Jyoti Kataria Company Secretary M. No. A55376



FINANCIAL EXPRESS

Place: Jaipur

Date: February 14, 2023

Silgo Retail Limited

CIN:L36911RJ2016PLC049036

Regd. Office: B-11, Mahalaxmi Nagar, JLN Marg, Jaipur Rajasthan-302017 E-mail: info@silgo.in website: www.silgo.in

Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine monthsended December 31, 2022

				(Ru	pees in lakh	s except per	share data
S. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2022 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2021 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2021 (Unaudited)	Year Ended 31.03.202 (Audited)
1	Total Income from operations	889.54	614.04	1031.94	2131.43	2385.44	3514.42
2	Net profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	80.07	55.48	86.53	207.21	220.64	315.75
3	Net profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	80.07	55.48	86.53	207.21	220.64	315,75
4	Net profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	59.89	40.60	64.80	152.91	167,17	230.57
5	Total Comprehensive income for the period (comprising profit/loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	59.89	40.60	64.80	152.91	167.17	234.08
6	Equity Share Capital	1027.00	1027.00	1027.00	1027.00	1027.00	1027.00
7	Other Equity	. 2	74 1				1812.62
8	Earning per share (of Rs. 10/-each) Basic; Diluted:	0.58	0.40	0.63 0.63	1.49	1.63 1.63	2.28

31, 2022 filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Nine monthsended December 31, 2022 is available on the website of Stock Exchange: www.nseindia.comand the Company's website:www.silgo.in.

Note: a. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine monthsended December

b. The above results have been reviewed by the Audit committee and approved by the Board of Directors at their respective Meetings held on February 14, 2023.

Silgo Retail Limited Sd/ Nitin Jain

For and on behalf of the Board

(Managing Director) DIN: 00935911

JOHN OAKEY AND MOHAN LIMITED CIN:L15549DL1962PLC003726

Regd Office: office no 4 First Floor Near Punjab National Bank Pocket E Market Mayur vihar phase 2 Delhi 110091 **E-Mail**: oakeymohan@gmail.com. **Website**: www.oakeymohan.in **Tel.**: 0120-2657298

EXTRACT OF THE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 3IST DECEMBER, 2022

							(Rs. in Lacs
SI. No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Nine Months Ended	Nine Months Ended	Year Ended 31st March,
		31.12.2022 unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31-12.2021 Unaudited	2022 Audited
		(3)					
1	Total Income from Operations (Net)	376.71	417.87	584.44	1,183.16	1,401.50	1,820.47
2	Net Profit / (Loss) for the period (before		/		(== ==)		
	Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(25.75)	(27.42)	40.60	(70.73)	71.03	88.33
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax	(05.75)	(07.40)	40.00	(70.70)	74.00	00.00
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(25.75)	(27.42)	40.60	(70.73)	71.03	88.33
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	(10.27)	(20.52)	29.98	(52.02)	E2 24	65.77
5	Total Comprehensive Income for the period	(19.27)	(20.52)	29.90	(52.93)	52.34	05.77
'	[Comprising Profit/(Loss) for the period						
1	(after tax) and Other Comprehensive						
1	Income(after tax)]	(22.40)	(18.60)	30.86	(51.41)	55.51	83.32
6	Equity Share Capital	48.38	48.38	48.38	48.38	48.38	48.38
7	Reserve excluding Revaluation Reserves						
1	as per balance sheet of previous year	-					1,787.49
8	Earnings Per Share (EPS) (for continuing						· ·
1	and discontinued operations)						
	(of Rs.10 each (not Annualised)	-					-
а	Basic (Rs)	(3.98)	(4.24)	6.20	(10.94)	10.82	13.60
b	Diluted (Rs)	(3.98)	(4.24)	6.20	(10.94)	10.82	13.60

. The above is an extract of the detailed format of Quarterly And Nine Months ended december 31,2022 reults filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months ended Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.msei.in and on Company's website at www.oakevmohan.in

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their respectivemeetings held on 14th

The Statutory Auditors have carried out a limited review of the results for the quarter and and Nine Months Ended 31st December 2022 For And on behalf of the board For JOHN OAKEY AND MOHAN LIMITED

Place: New Delhi Date: 14th February, 2023

Date: 14.02.2023

Place: Gurugram

Dated: 14.02.2023

financiale

Place: Delhi

JAY USHIN LIMITED

CIN: L52110DL1986PLC025118 Regd. Off: GI-48, G.T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi- 110033 Tel: 91(124)-4623400 | Email: julinvestors@jushinindia.com | Website: www.jpmgroup.co.in

					Rs. In Lakh	s except for	share data
201			Quarter Ended			ns Ended	Year Ended
SI No.	Particulars	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
140.		(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	17,033.08	20,312.29	15,988.02	56,086.05	47,028.19	65,667.16
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	2008000	18 - (18 R-C).	200,0000	G 1998 200 900 90	200000000000000000000000000000000000000	25.508-5405-5408
100	Exceptional and/or Extraordinary items)	385.14	525.84	434.92	1,406.36	1,184.29	1,618.70
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax						
W	(after Exceptional &/or Extraordinary items)	385.14	525.84	434.92	1,406.36	1,184.29	1,618.70
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	205.02	270 50	225.25	1.041.01	004.54	1 102 00
5	(after Exceptional &/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period	285.02	378.56	335.35	1,041.01	804.54	1,193.88
,	[Comprising Profit / (Loss) for the period						
	(after tax) and Other Comprehensive Income						
	(after tax)]	297.90	386.09	346.54	1,071.65	839.81	1,229.39
6	Paid-up Equity Share Capital	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45
	(Face Value per Share Rs. 10/-Each)						
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						
1000	as shown in the Audited Balance Sheet of						
0:	the previous year						8,161.86
8	Earnings per equity share (EPS) (of Rs. 10/- each)						
	a) Basic	7.38	9.80	8.68	26.94	20.82	30.89
	b) Diluted	7.38	9.80	8.68	26.94	20.82	30.89
		(Not	(Not	(Not	(Not	(Not	00.00
		Carried Control of the	CALL STORY OF THE PARTY OF THE	and the little ways	Control of the Contro	House Middle Const	A William Committee on

Annualised) Annualised) Annualised) Annualised) Annualised) (Annualised) Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the Quarterly /Half yearly Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company website www.jpmgroup.co.in

For and on behalf of Board of Directors Jay Ushin Limited Ashwani Minda (Managing Director)

EFFICIENT INDUSTRIAL FINANCE LTD CIN: L65923DL1984PLC019608 Regd Office: 3/14A, Vijaynagar Double Storey, Delhi-110009 Contact No. 9891173870, Website: www.efficientindustrial.in

Email Id: efficientindustrial@gmail.com
Extract of Standalone Financial Results for the Quarter ended on 31st Dec, 2022

			Amt in Lakhs)
9		Standalone	
Particulars	Quarter and	Corresponding 3	Year ended
	three months	months ended	on
	ended	(31/12/2021) in the previous year	31.03.2022
	(31/12/2022) Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations (net)	0.62	0.50	11.17
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or			
Extraordinary items)	(1.01)	(0.34)	0.59
Net Profit/(Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or			
Extraordinary items)	(1.01)	(0.34)	0.59
Net Profit/(Loss) for the period	(1.01)	(0.34)	0.44
Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss)			
for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]			
Paid-up equity share capital [Face value Rs. 10 per share]	24.80	24.80	24.80
Reserves (excluding revaluation reserves as Shown in the			
Balance Sheet of previous Year)	727.28	726.15	725.53
Earnings per share - (after extraordinary items)- (of Rs. 10/- each)	(0.41)	(0.14)	0.18
Diluted earnings per share- (after exceptional items)- (of Rs. 10/- each)	(0.41)	(0.14)	0.18

Notes: The above is an extract of the detailed format of the Standalone results for the three months ended on 31st Dec. 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Lising and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Financial Results for the three months ended on 31st Dec. 2022 are available on the Stock Exchange website www.msei.ir and the company Website.

For Efficient Industrial Finance Ltd

Raj Kumar Bardia **Managing Director** DIN- 01736079 क्रेनरा बैंक Canara Bank 🖈 स्त्री सिर्मिडकेट Syndicate

Branch Office

IDFC FIRST

Authorised officer

Shahabad Ladwa Road, Babain

POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)]

Whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act" and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 02-12-2022 Calling upon the borrower M/s Priya Auto, Proprietor- Sri Satbir Sharma to repay the amount mentioned in the notice, being Rs.608460.89 (Rupees Six Lakhs Eight Thousand four Hundred Sixty and Paise eighty nine only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / he under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this 14th day of February of the year 2023. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs.608460.89 (Rupees Six Lakhs Eight Thousand four Hundred Sixty and Paise eighty nine only) and interest thereon. The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem

the secured assets.

Description of the Immovable Property All that part and parcel of Plot No 8 & 9 Jointly measuring 0K 2M i.e 2/133 Share out of 6K 13M comprised in Khewat No.

152, Khatoni No. 176, Rect. No. 27, Khasra No. 21/1 (6-13) Situated at village Babain, Dist-Kurukshetra vide Jamabandi for the year 2010-11 purchased vide sale deed no 183 Dt. 12.05.2015 read with mutation no 9307. Measurement as: East to West: 20'-0"North to South: 30'-0" The Property is bounded as under:- North: Ladwa Shahabad Road, South Meter / Plot of Others, East: Meter / Plot No 7, West: Plot of Taro Devi.

Dated: 14.02.2023 Place: Babain **Authorized Officer, Canara Bank**

IDFC First Bank Limited

(erstwhile IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)

CIN: L65110TN2014PLC097792

Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031. Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

> APPENDIX IV [Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas the undersigned being the authorised officer of the IDFC FIRST Bank limited (erstwhile IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) under the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 issued a demand notice dated 16-11-2021 calling upon the borrower, co-borrowers and guarantors 1. Nabiluddin Z Shaikh, 2. Nabiluddin Z Shaikh, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 44,62,312.00/- (Rupees Forty Four Lakh Sixty Two Thousand Three Hundred And Twelve Only) as on 10-11-2021, within 60 days from the date of receipt of the

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub – section (4) of section 13 of act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this 10th day of February 2023. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the

property will be subject to the charge of the IDFC FIRST bank limited (erstwhile IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) for an amount of Rs. 44,62,312.00/- (Rupees Forty Four Lakh Sixty Two Thousand Three Hundred And Twelve Only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub - Section (8) Of Section 13 of the act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Description of the Immovable properties.

All That Piece And Parcel Of The Residential Flat Bearing No. 504 On Fifth Floor In Tower No. C1 Having An Approx. 1495 Sq. Ft (Equivalent To 138.94 Sq. Meters) Of Super Built-Up Area Consisting Of Three Bedrooms, One Living Cum Dining Room, One Kitchen, Two Toilets, Three Calconies, In The Complex Named "Shree Vardhman Gardenia" To Be Constructed By The Company On The Project Land (Hereinafter Referred To As The Said "Flat"), Situated In The Revenue State Of Village Raipur, Sector-10, Sonipat-Kudali, (Haryana) Haryana And Bounded As: East: Entry, North: Open, West: Open, South: Open

Date: 10th February 2023 Place: Raipur. Loan Account No: 10051667935.

IDFC FIRST Bank limited (erstwhile IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)

INTERNATIONAL DATA MANAGEMENT LIMITED CIN: L72300DL1977PLC008782

Regd. Off.: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi -110019 Tel: 011-26444812, E-mail: idmcomplianceofficer@gmail.com Website: www.idmlimited.in

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022 [Pursuant to Regulation 47 (1) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE OUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022 (Rs. In Lacs)

Sr.			Un-Audited		Audited Year Ended	
No.	PARTICULARS	Three Months Ended	Nine Months Ended	Three Months Ended		
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022	
1	Total Income from operations	0	0	0	(
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.69)	(7.77)	(1.81)	(7.95	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.69)	(7.77)	(1.81)	(7.95	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.69)	(7.77)	(1.81)	(7.95	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.69)	(7.77)	(1.81)	(7.95	
6	Equity Share Capital	220.00	220.00	220.00	220.0	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0	0	0	(447.97	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operation)- 1. Basic:	(0.08)	(0.35)	(0.08)	(0.36 (0.36	
	2. Diluted:	(0.08)	(0.35)	(0.08)	(0.	

NOTES A:

Sanjeev Bawa

DIN: 03633427

Managing Director

DIN: 00049966

- 1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website; www.bseindia.com as well as on the Company's website; www.idmlimited.in.
- 1 The above results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in their respective meetings held on February 13, 2023 and have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
- 2 The Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of Financial Results for the guarter ended December 31 2022 pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- 3 Previous year's/periods figures have been regrouped /rearranged wherever necessary.

Place: New Delhi Date: February 13, 2023

Sd/-**Sunil K Srivastava** (Chairman & Director) DIN: 00259961

For International Data Management Limited

INDIAN SUCROSE LIMITED

CIN: L15424PB1990PLC010903 Registered Office & Works: G.T. Road, Mukerian - 144211, Distt. Hoshiarpur (Punjab), India

Tel: +91-9115110651/52, 91-9115110505, Email: isl.investor@yaducorporation.com, Website: muksug.in **EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS**

FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2022 (₹ in lakhs except earnings per share)

Sr.	Particulars	Standalone					
No.		Quarter ended			Nine months ended	Nine months ended	Year ended
		31.12.2022	31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022				31.03.2022
				(Un-Audited	1)		(Audited)
1.	Total Income from Operations	10,781	7,890	9,323	27,072	23,347	45,008
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,424	(265)	385	1,446	736	4,035
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,424	(265)	385	1,446	736	4,035
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	644	(167)	268	670	1,652	3,727
5.	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1)	(15)	3	(16)	(7)	(26)
6.	Equity Share capital	1,738	1,738	1,546	1,738	1,546	1,705
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0 0					
8.	Earnings per equity share (of ₹1/- each) (not annualised except for March, 31) (a) Basic (in ₹) (b) Diluted (in ₹)	3.70 3.70	' '				

NOTES:

- The above financial results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 14.02.2023.
- 2. The above financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder.
- 3. Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company 4. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI
- (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock exchange website, www.bseindia.com and on the Company's website www.muksug.in
- 5. The Previous financial period Figures have been regrouped/rearranged/restated, wherever considered necessary. For Indian Sucrose Limited

Kunal Yadav Date: 14.02.2023 (Managing Director) DIN: 01338110 Place: Mukerian

Notice is given under the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 ("Regulations"), that Globalise Capital India Pvt Limited is going to surrender its SEBI registration No INA100015443 and BASL membership Certificate no. BASL1193 and that if anyone has any grievances, they can lodge the grievances at

scores.gov.in.

Public Notice

'IMPORTANT'

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in anv manner whatsoever.

Place- Kanpur

Date- 14/02/2023

RAKAN STEELS LIMITED

CIN: L27320UP1985PLC007582

R/O: NH-2 (1 km from Bara Toll Plaza) Umran, Rania,Kanpur Dehat-209311

Corporate Office: Anand Palace, 10/499, Allen Ganj, Kanpur-208002 E-Mail: support@rakansteels.co.in Ph: Regd. Office: +91-9598668666 WEB: www.rakansteels.co.in

All amts. In Lakhs Particulars Year to date Corresponding Figures 31st December, ended 31st 3 months December, ended in the Previous 31st Tax. Exceptional and/or Extraordinary items#) 4.14 2.15

UN AUDITED QUARTERLY RESULTS FOR THE PERIOD ENDED ON 31" DECEMBER, 2022

1. Total Income from Operations 2. Net Profit / (Loss) for the period (before 3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items# 3.14 7.74 1.65 4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items# 5. Total Comprehensive Income for the period [Compr-3.14 1.65 ising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Othe Comprehensive Income (after tax)] 324.00 138.29 Equity Share Capital eserves (excluding Revaluation Reserve) 8. Earnings Per Share of Re. 1/- each (for continuing and discontinued operations) 0.01 0.024 0.010 1. Basic 0.010 2. Diluted

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity For Rakan Steels Limited

SD/- Kannan Agarwal DIN:(07318672)

Particulars

Total income from operations (net)

ROADWAYS INDIA LIMITED

Quarter Ended Nine Months Ended

31-Dec-22 | 30-Sep-22 | 31-Dec-21 | 31-Dec-22 | 31-Dec-21

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unauditer

1,352.00 | 1,483.20 | 1,167.27 | 4,285.15 | 3,453.12

CIN No: L63090DL1987PLC319212 Regd. Office: Plot No. 53-A/8, Rama Road Industrial Area, New Delhi-110015. Email: corporate@roadwaysindia.com, website: www.roadwaysindia.com Tel.: 011-47192065, Fax: 011-25815456 UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/ NINE MONTHS ENDED 315T DECEMBER, 2022

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and Extra-(14.35) 61.96 65.02 105.97 21.27 Ordinary Items) 3 Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and Extra-ordinary items) 4 Net Profit /(Loss) for the period 105.74 23.83 after tax (after Exceptional and (16.45)65.25 (2.73)Extra-ordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit) (Loss) for the period (after tax) and OtherComprehensive Income (after Tax)] 6 Paid Up Equity Share Capital 352.02 352.02 352.02 352.02 352.02 (Face Value of Rs.10/- each) Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year Earning Per Share (of Rs. 10/- each) 1,307.43 (not annualised) a) Basic & Diluted before extra 0.30 0.07 (0.008)ordinary items (0.05)b) Basic & Diluted after extra

ordinary items The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange(s): www.cseindia.com and www.msei.in and on Company's website; www.roadwaysindia.com. The above result was reviewed by the Audit Committee and was approved and taken on record by the Board

of Directors at its meeting held on 14.02.2023. The Statutory Auditor of the Company has carried out the limited review of the financial results. For Roadways India Limited

> Amit Goyal Managing Director

> > Year to date

figures for current

month ended in

Date: 14/02/2023 Place: New Delhi

NEELKANTH ROCK-MINERALS LIMITED CIN NO. L14219RJ1988PLC062162 REGISTERED OFFICE: FLAT NO. 606, SCHEME CHOPASANI JAGIR

KHASRA NO. 175/74, PLOT NO. 15/16 JODHPUR, RAJASTHAN-342001 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2022 (Rs. In Lakhs) **Particulars** 3 Month corresponding 3

Ended

period ended the previous year 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021 Unaudited Unaudited Unaudited 1 Total Income from Operations 0.13 3.55 0.04 Net Profit / (Loss) for the period (beforeTax, Exceptional and/or -7.31 -15.00 -9.46Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) -7.31 -15.00 -9.46 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional -7.31 -15.00-9.46and/or Extraordinary items#) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and -7.31 -15.00-9.46504.37 504.37 504.37 6 Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -

Note: 1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com).

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR NEELKANTH ROCKMINERALS LIMITED sd/-

(In Lacs, except per share data)

NORATMAL KAWAR Place: JODHPUR MANAGING DIRECTOR Date: February 14, 2023 DIN: 00464435

AUTO PINS (INDIA) LIMITED Registered Office: Shop No. 40, 1st Floor, India Mall, Community Centre,

New Friends Colony, New Dlehi-110025 Landline: (91)-11-23978748 CIN: L34300DL1975PLC007994 Web: http://www.autopinsindia.com E- Mail:autopins@vsnl.com Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the

Third Quarter & Nine months ended 31st December, 2022

	Quarter	ended	Year Ended	
Particulars	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	
Total Income from Operations	1019.65	1030.40	2908.69	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	19.65	8.84	39.07	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	19.65	8.84	39.07	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	19.65	8.84	39.07	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)and Other Comprehensive Income (after tax)]	19.65	8.84	39.07	
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	570.71	570.71	570.71	
Other Equity Excluding Revaluation Reserves	N.A.	N.A.	N.A.	
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic : 2. Diluted:	0.34 0.34	0.13 0.13	0.68 0.68	

Notes:

The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial Results for the Third Quarter and Nine months ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the Third Quarter and Nine months ended 31st Decembers, 2022 is available on the Stock Exchanges' website

(www.bseindia.com) and Company's website (www.autopinsindia.com). The above un-audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 14th February, 2023. For AUTO PINS (INDIA)LIMITED

> Sd/ RAJBIR SINGH MANAGING DIRECTOR

New Delhi

Date: 14th February, 2023

Place: Delhi

DIN: 00176574

फीनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड कब्जा पंजीकृत कार्यालयः 5वां तल, दानी कॉर्पोरेट पार्क, 158, सुचना सी.एस.टी. रोड, कलीना, सांताकुज (ई), मुम्बई-400098

परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्राईवेट लिमिटेड (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 23-10) के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत (फीनिक्स) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, गारंटरों को जारी कर संबंधित ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, गारंटरों को उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर सचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त ऋणधारक, सह-ऋणधारक, गारंटर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, गारंटरों तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, गारंटरों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय संबंधित तिथि से आगे के ब्याज, लागतों, चार्जेज के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि के लिये फीनिक्स के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, गारंटरों, गिरवी सम्पत्तियों, ट्रस्ट का नाम, बकाया राशि, धारा 13(2) के अंतर्गत भेजी गई मांग सूचना तथा उसके अंतर्गत मांग की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:

स्थानः बरैली. उ.प.

तिथि: 15.02.2023

कब्जा की तिथि नाम एवं पता, ऋण खाता सं., 3. बकाया राशि रु. में . मोह. अहवर एस/डी/डब्ल्यू- मोह. हनीफ, राजस्व ग्राम रिठौरा, परगणा, तह. एवं जिला 1. मांग सूचना तिथिः 25.7.2022 खसरा नं. 1379 केएचए 1380 केए 883 केए बरैली में स्थित खसरा नम्बर 1379 केएचए. 2. कब्जा की तिथि: 9.2.2023 884 केएचए, ग्राम रिठौरा बरेली, 243122 1380 केए, 883 केए, 884 केएचए के माध्यम 3. 25.7.2022 को बकाया तथा देय रु. 2. सबीना बी एस/डी/डब्ल्यू- मोह. अहवर, से मकान माप 125.41 वर्ग एम. की गिरवी 10,91,876/- (रु. दस लाख इक्यानवे हजार खसरा नं. 379 केएचए, 138 केए 883 केए सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा जिसकी आठ सौ छियत्तर मात्र) के साथ सम्पूर्ण भुगतान 884 केएचए रिठौरा, 243122 चौहद्दी है: पूर्व: गफूर का प्लॉट, पश्चिम: नाथू तक 13.50% प्रति वर्ष की दर से आगे का लागू संख्याः का प्लॉट, उत्तरः मुन्ना लाल आदि का प्लॉट, होने वाला ब्याज तथा लागत एवं चार्जेज। HM/0100/H/18/100071 दक्षिणः रास्ता ०९ फीट स्वीकत ऋण राशिः रु. 10,20,000/- (रुपये) दस लाख बीस हजार मात्र)

इण्डिया फिनसेक लिमिटेड

पंजीकत कार्यांतवः ही-16. प्रथम तल आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर प्रशान्त विहार सेक्टर-14. रोहिणी, नई दिल्ली-110085 सीआईएनः L65923DL1994PLC060827, येक्साइटः www.indiafinisec.com, ई—मेस आईडीः indiafinisec@gmail.com, कोनः -011-47096097

31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतू स्टैन्डअलोन एवं समेकित विलीय परिणामों का सारांश (इंड एएस अनुपालन) (क. लाखों में)

कृत्ते, फीनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 23-10 के ट्रस्टी)

			स्टैण्डअलोन			समें कित	
那. 说.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त नौमाही	समाप्त विमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त नौमाही
		31 दिस. 22 (अनंकेसित)	31 दिस. 21 (अनंकेसित)	31 दिस. 22 (अनंकेसित)	31 दिस. 22 (अनंकेसित)	31 दिस. 21 (अनंकेसित)	31 दिस. 22 (अनंकेकित)
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	8.78	16.89	24.13	1,257.50	605,91	3,191.09
2	कर से पहले साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाम / (हानि)	12.24	(3.92)	17.49	147.32	84.07	389.66
3	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	9.00	(6.42)	12.14	139,94	55.82	354.77
4	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(डानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) सहित]	9.00	(6.42)	12.14	139.94	55.82	354.77
5	पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी	2,494.17	2,494.17	2,494.17	2,494.17	2,494.17	2,494.17
6	आरक्षितियाँ (तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मुल्यांकन आरक्षितियाँ को छोडकर)	1,957.76	1,956.35	1,957.76	3,277.16	2,755.22	3,277.16
7	प्रति शेवर आव (असाधारण मदों से पहले और बाद में) (रू 10/- प्रत्येक)						
	बेसिक	0.04	(0.03)	0.05	0.56	0.22	1.42
	डायल्यूटिड	0.04	(0.03)	0.05	0.56	0.22	1.42

उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत, स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज समाप्त त्रैमासिक / नौमाही के वित्तीय परिणामों (स्टैण्डअलोन एवं समेकित) के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। समाप्त त्रैमासिक / नौमाही के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सबेंज की वेबसाइट अर्थात (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.indiafinsec.com पर भी उपलब्ध है।

कृते इण्डिया फिनसेक लिमिटेड

तिथि: 14.02.2023 स्थानः नई दिल्ली

Date: 14.02.2023

Place: Gurugram

स.

गोपाल वंसल (प्रबंध निदेशक) **दीआईएनः** 01246420

JAY USHIN LIMITED

CIN: L52110DL1986PLC025118

Regd. Off: GI-48, G.T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi- 110033 Tel: 91(124)-4623400 | Email: julinvestors@jushinindia.com | Website: www.jpmgroup.co.in STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

					(Rs. In Lakh	s except for	When the beautiful the second second
01			Quarter End	ed	Nine Mont	hs Ended	Year Ended
SI No.	Particulars	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
10.	a modernama uma e 193 454.	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)
1 2	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	17,033.08	20,312.29	15,988.02	56,086.05	47,028.19	65,667.16
3	Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax	385.14	525.84	434.92	1,406.36	1,184.29	1,618.70
4	(after Exceptional &/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax	385.14	525.84	434.92	1,406.36	1,184.29	1,618.70
5	(after Exceptional &/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income	285.02	378.56	335.35	1,041.01	804.54	1,193.88
	(after tax)]	297.90	386.09	346.54	1,071.65	839.81	1,229.39
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value per Share Rs. 10/-Each)	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						8,161.86
8	Earnings per equity share (EPS) (of Rs. 10/- each)						3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	a) Basic	7.38	9.80	8.68	26.94	20.82	30.89
	b) Diluted	7.38	9.80	8.68	26.94	20.82	30.89
10		(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Annualised

Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requriements) Regulation 2015. The full format of the Quarterly /Half yearly Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company website www.jpmgroup.co.in

CAPITALS

LIMITED

विवरण

प्रचालनों से कुल आय

मढों के पश्चात

(कर के बाद)

बेसिक : (₹)

डाइल्यटेड : (₹)

इक्विटी शेयर पँजी

2. सामान्य से शुद्ध लाभ/(हानि)

कर के बाद की गतिविधयाँ

कुल व्यापक आय/(हानि)

व्यापक आय/(हानि)

कर पश्चात अवधि हेत् निबल लाभ/

(हानि) अपवादित तथा असाधारण

वर्ष के लिए लाभ /(हानि) सहित वर्ष के लिए (कर के बाद) और अन्य

प्रति शेयर आय (वार्षिक नहीं)

For and on behalf of Board of Directors Jay Ushin Limited Ashwani Minda (Managing Director)

सीआईएन : L74140DL1991PLC340407

स्टैण्डएलोन

समाप्त तिमाही

31.12.2022 31.12.2021

19.52

(2.59)

(2.59)

(2.59)

350.16

(0.07)

(0.07)

अनुमोदित किया गया। लेखा परीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षाकों द्वारा किया गया है।

www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.imcapitals.com पर।

अलेखा परीक्षित अलेखा परीक्षित अलेखा परीक्षित

55.29

24.22

24.22

24.22

350.16

0.69

0.69

अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

31 दिसम्बर, 2022 को तिमाही एवं नौमाही समाप्ति के लिए

31.12.2022

66.89

6.86

6.86

6.86

350.16

0.20

0.20

1. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा की गई और लेखापरीक्षा समिति द्वारा सिफारिश की गई और निदेशक मंडल द्वारा 14 फरवरी, 2023 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में

2. उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर अलेखापरीक्षित तिमाही परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। अलेखापरीक्षित स्टॅंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट,

नौमाही समाप्ति

31.12.2021

अलेखा परीक्षित

214.35

99.98

99.98

99.98

350.16

2.86

2.86

DIN: 00049966

आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 72, भूतल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001

वेबसाइट : www.imcapitals.com, ई-मेल : imcapitalscompliances@gmail.com

NAM SECURITIES LIMITED (CIN: L74899DL1994PLC350531) Registered Office: 213. Arunachal Building, 19. Barakhamba Road, New Delhi-110001 Email Id: compliance@namsecurities.in, Website: www.namsecurities.in

	0	Fort	For the Quarter Ended For nine months ended Year E		For nine months ended		
	PARTICULARS	31.12.2022 (Unaudited)		31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1.	Total Income from Operations	1534.10	1871.87	2173.61	5304.36	6648.08	8645.17
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	15.87	24.34	20.91	65.73	56.69	60.02
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	15.87	24.34	20.91	65.73	56.69	60.02
4.	Net Profit/(loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	12.12	19.84	15.56	52.48	44.19	45.27
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	12.12	19.84	15.56	52.48	44.19	45.27
6.	Equity Share Capital	539.20	539.20	539.20	539.20	539.20	539.20
7.	Reserves (excl. Revaluation Reserve)	7,540,550,00					524.45
8.	Earnings Per Share (EPS) before Extraordinary item -Basic -Diluted	0.22 0.22	0.37 0.37	0.29 0.29	0.97 0.97	0.82 0.82	0.84 0.84

Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation 2015. The full format of Quarter ended 31/12/2022are available on websites of the BSE (www.bseindia.com) &on the Company's website (www.namsecurities.in).

2. The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on February 14, 2023. For: Nam Securities Limited

Place: New Delhi Date: February 14, 2023

) IDBI BANK

क्षेत्रीय कार्यालय- दिल्ली रोड, मुरादाबाद शाखा कार्यालय- बुलब्दशहर

(Kiran Goyal)

Managing Director

(DIN:00503357)

कब्जा नोटिस (8 नियम (1) के तहत अचल सम्पति के लिए)

एतदद्वारा, अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ (सरफेसी) में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए व प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के साथ पठित धारा १३ (१२) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सम्बन्धित ऋणी/यों को मांग सूचना पत्र भेजे गये कि उक्त नोटिस/सों की प्राप्ति/नोटिस जारी करने की तिथि के 60दिनों के भीतर सम्बन्धित मांग सचना पत्र में दी गयी राशि का भगतान कर दें। ऋणी/यों द्वारा ऋण राशि का भगतान न कर पाने के कारण सभी ऋणी/यों और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं सपिठत नियम ८ के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। ऋणी/यों को विशिष्टतः और सर्वसाधारण को सामान्यतः सर्तक (सावधान) किया जाता है कि वह निम्नलिखित सम्पत्ति के साथ कोई लेन देन न करे । सम्पत्ति से किया गया किसी भी प्रकार का लेन देन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के ऋणभार के निम्न राशि एवं उस पर ब्याज व खर्चे के आधीन होगा । अगर ऋणी/जमानती इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर समस्त ऋण को चुकता नहीं करता तो निम्नलिखित सम्पत्तिं को बेचकर ऋण वसुली की जाएगी। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभृत आस्तियों को छड़ानें उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की आकृष्ट किया

202-06

ऋणी का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	नाटिस का तिथि को बकाया धनराशि	कब्ज का तिथि
	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल, खेत नं.—38, 39, ग्राम एबीएस क्षेत्रफल 83.66 वर्ग मीटर, वलीपुरा, चांदपुर रोड के पास, जिला— बुलंदशहर, यूपी—203001, रिधत वलीपुरा जिला बुलंदशहर राज्य उत्तर प्रदेश, सीमायें:— उत्तरः रास्ता 6.06 मीटर चौड़ा साईड 20' फीट, दक्षिणः रमेश का प्लॉट साईड 20' फुट, पूर्वः विक्रेता का प्लॉट साईड 45' फुट, पश्चिमः हरपाल का प्लॉट साइड 45' फीट	विनांक 20 .09.2021 के अनुसार कब्जा नोटिस रु 16,78,671.35	09.02.2023
एग्रो डेवलपमेंट	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल, खेत संख्या—425/2, क्षेत्रफल 2350 वर्ग मीटर, कुल 5030 वर्ग मीटर में से, निर्मित है उस भूमि पर जो स्थित है ग्राम नरसेना तालुका तहसील सियाना, जिला बुलंदशहर राज्य उत्तर प्रदेश, सीमायें:— उत्तरः चरण सिंह का खेत और अन्य, दक्षिणः सुरेंद्र का खेत, पूर्वः बानी सिंह का खेत, पश्चिमः विक्रेता का खेत।	नोटिस, दिनांक 16.08.2022 के अनुसार	09.02.2023

दिनांक: 14.02.2023

स्थानः बुलंदशहर

प्राधिकत अधिकारी

mehindra

पंजिक्त कार्यालय:-साधना हाउस, द्वितिय तल,570 पी.बी. मार्ग वर्ली, मुम्बई-400018 दुरभाष:-022 66523500 फैक्स:022 24972741,CIN:U65922MH2007PLC169791 क्षेत्रीय कार्यालय:- तीसरी मॅजिल, प्लॉट नंबर 46-47, श्रीनाथ टॉवर, कॉस्मो कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपर - 302021 नीलामी सह बिक्री हेत् सार्वजनिक सूचना

प्रतिभत ऋणों की वसली के उद्देश्य से प्रतिभति हित अधिनियम , 2002 के अंतर्गत महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी द्वारा ऋण की ओर बकाया धनराशि की वसुली हेत निम्न वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का आधिपत्य लेने के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अचल सम्पत्ति, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है । जो कि भौतिक आधिपत्य में है ,के ''जहाँ है , जैसी है और जो है ''के आधार पर क्रय हेत् सीलबंद लिफाफों में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं । जिसका विवरण निम्नान्सार है

ऋणी (याँ)/ जमानतद्य(रो)	मांग सूचना की दिनांक हवं बहुतथा राशि 13-08-2021 क.7,12,826/- (रूपये रुपये सात लाख बारह हजार आठ सी खब्बीस मात्र)	सुरक्षित अर्जंज सम्पत्तियों का विदरण सम्पत्ति के सभी अभिन अंग जो पड़ा सं. ००७, पुस्तक संख्या ०२, ग्राम-नांगल, मोजिया, ग्राम पंजायत-नूरनगर, पंजायत	आरक्षित मुल्य	थरोहर राशि	
ऋणी:दीन मोहम्मद सह-ऋणी: जमीला बानो रफीक, महिपाल सिंह LAN:XSEMALW00927114		समिति-किञ्चनगद् बास, अलबर, राजस्थान क्षेत्रफल 168.88 वर्ग गज जिसकी सीपाए:-पूर्व में:-गली 2.6" और आम सदक पश्चिम में:- रांहिताश और हजारी की संपत्ति, उत्तर में:-आसमोहम्मद की संपत्ति,दक्षिण में:-हकाम का घर	₹⊼. 6,46,570/-	₹6. 64,657/-	
ऋणी:पूरन मल सैन सह-ऋणी:पुष्पा देवी हेमंत कुमार सैन जमानतदार: दया नंद शर्मा LAN:XSEMJPB00592269	त्रिक्षण देवी त		ゃ. 7,07,325/-	ゃ , 70,732.50	
ऋणी:प्रधान सह-ऋणी:लछमा LAN:XSEMAJM00478089			वायत समिति- अराङ्, जिला रू. गंब्हीट १ प्लॉट १, जलर में:-आम रास्ता		
सह-ऋणी:रूपा देवी है. 10,32,197/- (रूपचे रुपये दस लाख राजेश रेगर वर्जास हजार (क्स संस्थानवे		सम्पत्ति के सभी अधिन अंग जो प्लॉट नं. 06, खसरा नं. 796/7 जो गणेश विहार, थाल रोड, सुरसुरा, तहसील- रूपनगढ़, अजमेर, राजस्थान क्षेत्रफल 288.88 वर्णगज जिसकी सीमाए:-पूर्व में:-25 फीट चीडी रोड पश्चिम में:- प्लॉट नं. 07 और 08, उत्तर में:- प्लॉट नं. 09 दक्षिण में:- प्लॉट नं. 05	रू. 4,54,986/-	ゃ. 45,498.60	

१.उपरोक्त वर्णित क्षेत्रीय कार्यालय के पते पर निर्धारित निविदा प्रारूप में ईएमडी एवं केवायसी सहित सीलवंद प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 18.03.2023, सार्थ 05.00 वर्ज तक रहेगी । विविदाएं जो पूर्णतः विधिवत रुप से भरी नहीं जावेगी अथवा निविदाएं जो अंतिम तिथि के पत्रचात प्राप्त होंगी । को वैध निविदा के रूप में स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं तदनुसार निरस्त कर दी जावेगी । इंएमडी पर कोई क्याज देव नहीं होगा ।(2) उपरोक्त वर्षित क्षेत्रीय कार्यालय के पते पर प्रस्ताव खोलने कि तिथि एवं 20.03.2023 को 'प्रात: 11.00 में दोपहर 1.00 बजे हैं , निविदा को प्राधिकारी की उपस्थित में खोला जायेगा ।(3) संपत्ति के निरीक्षण की निश्चि 22.02.2023 को प्रात: 11 वजे से दोपड़र01.00 वजे के बीच है।(4)कणी एवं जमानतदार को एनटनसार विकृष के समय व्यक्तित रूप से उपस्थित होने के लिए सचित किया जाता है एवं विक्रय के नियम एवं शर्तों के अनुसार -उपरोज्तानसार वर्षित अचल सम्पन्ति को क्रय करने के लिए प्रस्तावित केतायण को साथ ला सकेंगे । (🖇 यह 30 दिनों का विक्रय नोटिस सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आम तौर पर जनता विशेष रूप से उधाकर्ता 🗸 ओं , सह- उधारकर्ता ओ / जमानतदारों को दिया जाता है कि उपर वर्णित अचल संपत्ति को सरक्षित लेजदारों के पास बंधक /प्रभारित किया गया है । महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (MRHFL)स्रक्षित लेजदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा ले लिया है। जिसे जहां है जैसी है तथा जिस अवस्था में है और महिन्त करल हार्टीसंग काइनेंस लिमिटेड की बकाया राशि के आधार पर बेचा जाएगा, बिक्री की तारीख से पहले पूर्ण कप से नीलामी विज्ञापन रोके जाने के लिए उत्तरदायी है ।(६) अचल सम्पत्ति को सबसे अंची निविदा (बांली) लगाने वाले को विक्रय किया जावेगा । डालांकि अओडस्तारकर्ता को अन्तर बोली (निविदा). चंदि आवश्यक डो तो को म्वीकार करने का एकमेव विवेकाधिकार रहेगा । दी गई संपन्ति का विक्रय आरक्षित मृत्य से कप राशि पर नहीं होगा ।(७) MRHFL उपरोक्त दशायी गई संपन्ति के उपर किसी भी प्रकार के देनदारियों के लिए विस्पेदार नहीं होगा । संपत्ति की नीलापी जहां है जैसी है, जो है तथा जिस अवस्था में है के आधार पर की जायेगी । (8 -) दिमांद दाफर पहिन्ता करल हार्विंग फाइनेंस लिपिटेंद के पक्ष में बनाए जाएंगे । (9 -) नीलामी विक्रय की विस्तृत नियम एवं शर्त निर्धारित निविदा प्रारूप में समाविष्ट की गई हैं । निविदा प्रारूप उपरांक क्षेत्रीय कार्यालय पर उपलब्ध हैं । प्राधिकृत अधिकारी के पास निविदा की तिथि बढ़ानं एवं प्रस्ताव के नियम व शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सरक्षित रहेगा । बोली की अन्य नियम एवं शर्त व अन्य जानकारी हेत हमारी शाखा या वंबसाईट www.mahindrahomefinance.com पर जाए । अधिक जानकारी के लिए प्राधिकत अधिकारी से उपरोक्त पते पर संपर्क करें ।

(प्राधिकृत अधिकारी), पहिन्द्रा करल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांक: 15.02.2023 स्थान:राजस्थान

एडलवेस एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालयः ई-3, द्वितीय तल, दिल्ली प्रेस, रानी झांसी रोड, झंडेवालान, नई दिल्ली को अपने अधिकृत अधिकारी के माध्यम से. 1. नवजोत बोपाराय पुत्र श्री सुखबीर सिंह बोपाराय और 2. प्रीतम कौर पत्नी श्री नवजोत बोपाराय, दोनों का निवास-पताः मकान नंबर 663, प्रभु प्रेम पुरम, खोजकीपुर, अंबाला कैंट और दसरा पताः खसरा नंबर आईओयू13, पार्ट / प्लॉट नंबर 63, ग्राम खोजकीपुर, तंगरी नदी के पास, तहसील और जिला अंबालां की आवासीय / वाणिज्यिक / औद्योगिक / मशीनरी की अपनी बंधक संपत्ति— बंधक संपत्ति / आवासीय भृखंड के समस्त वह भाग तथा अंश, जो खसरा नंबर 10यू13, भाग / प्लॉट नंबर 63 में समाविष्ट हैं जिसका रकबा 24 वर्ग गज है जो ग्राम खोजकीपुर, तंगरी नदी के निकट, तहसील एवं जिला अंबाला में स्थित है– का भौतिक कब्जा लेना होगा। तहसीलदार, अंबाला छावनी को एतद्दवारा उक्त कार्रवाई के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियक्त किया जाता है और निर्देशित किया जाता है कि यह कार्रवाई करने से पर्व दो समाचार पत्रों में 15 दिनों की एक सूचना प्रकाशित करायें, अन्यथा विधि अनुसार विधिक कार्यवाही की

जायेगी। उक्त समाचार पत्र की एक प्रति दो दिन के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तत की जाय खर्च, एचएएनके अधिकारियों द्वारा वहन किया जाएगा। यदि कोई स्थगनादेश, किसी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो बैंक के मुख्य प्रबंधक द्वारा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी हस्ता. / – जिलाधिकारी, अंबाला

ईएनडीएसटी. नं.: 2310-12 / पेशी दिनांक 18-10-2021 एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है। 1. वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षक, अंबाला। उनसे अनुरोध है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की सुरक्षा के लिए उन्हें एक बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराएं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए साइ पर पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात कराएं। 2. तहसीलदार, अंबाला कैंट।

डायरी संख्या 38/2023

3. द एडलवेस एसेट रिकस्टक्शन कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय: ई-3. द्वितीय तल. दिल्ली प्रेस, रानी झांसी रोड, झंडेवालान, नई दिल्ली–110055। उसे उपस्थित रहने और सुरक्षित परिसंपत्तियों का भौतिक कब्जा लेने से पहले संबंधित अधिनियम, नियमों, स्थगन आदेशों, यदि कोई हो. और बंधककत विलेख / समझौते के प्रावधानों का अनपालन सनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। आवश्यक प्रावधान और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

हस्ता. / – जिलाधिकारी, अंबाला

दिनांकः 16.01.2023

ऋण वसूला आधकरण, दहरादून भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड—248171 प्रकाशन नोटिस ओ०ए० संख्या 136/2022

ऋण वसली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब—सेक्शन (4) सपठित उप नियम (2ए) के नियम 5 समय—समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) नियम 1993 के अधीन उपस्थित होने

केनरा बैंक बनाम मैसर्स वंश कंस्ट्रक्शन एवं अन्य

सेवा में. मैसर्स वंश कंस्ट्रक्शन, निकट संगम हॉल, रोशनाबाद, जिला– हरिद्वार– 249402. प्रोपराइटर श्री राज पाल।

 श्री राज् पाल पुत्र श्री चन्द्रभान, निवासीः ग्राम— रोशनाबाद, जिला— हरिद्वार। द्वितीय पताः गढमीरपुर, सलेमपुर महद्द, जिला- हरिद्वार।

श्री विकास मलिक पुत्र श्री कृष्ण पाल, निवासी: परमानंद विहार कॉलोनी, रोशनाबाद,

जिला- हरिद्वार। जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध रू. 59,43,102.76/- की वसूली हेत् औ०ए० सं० 136/2022 संस्थित किया है, जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसूली

एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के सम्मन / नोटिस जारी किया था जो कि माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष 11.01.2023 को सुचीबद्ध किया गया था। यह कि, माननीय ट्रिब्युनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी

किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि० 27.02.2023 को अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रुप से अथवा अपने अधिकृत एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों। इसके अलावा, आपको यह दिखाने की आवश्यकता है कि ओ०ए० में दी गई राहत की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और सेट में पेपर बुक फॉर्म में अपने बचाव में और यदि कोई हो, तो सभी दरतावेजों और शपथ पत्रों के तहत अपने बचाव में दायर करें। व्यक्तिगत रूप से या इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के मीतर, इस ट्रिब्यूनल में व्यक्तिगत रूप से या आपके विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सेंट अप, काउंटर क्लेम के लिए आपका बचाव या दावा प्रस्तुत करें। सचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर टिब्युनल में आपकी उपस्थिति की चुक की दशा

में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपरिधति में किया जायेगा।

दिनांक 16 जनवरी, 2023 के दिन अधिकरण की मूहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी। ट्रिब्युनल के आदेशानुसार रजिस्ट्रार, ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरादून

PARTAP INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Vill Beopror, G.T. Raod, Near Shambhu Barrier Distt. Patiala, Punjab 140417 INDIA. CIN: L15142PB1988PLC008614. Émail: partaplisting2017@gmail.com EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER, 2022

(INR in Lacs except per share data) STANDALONE PARTICULARS For the Quarter Ended For the Year Ended 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.03.2021 7332.96 10437.66 12566.63 42714.25 30202.53 Total Income from operations Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary 1,233.88 1,561.74 1,927.25 4,433.07 1,800.84 Total Comprehensive Income 1,926.14 3,337.89 1,253.60 973.88 1,301.74 for the period Paid-up Equity Share Capital (32,02,350 Equity Shares of INR 10/- each) 32.02 32.02 32.02 32.02 32.02 Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation 104.23 30.41 40.65 60.15

(2) Diluted 30.41 40.65 60.15 104.23 (INR in Lacs except per share data) CONSOLIDATED PARTICULARS For the Quarter Ended For the Year Ended 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.03.2021 9,182.92 11,803.89 13,314.92 45,641.94 33,145.06 Total Income from operations Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary 1,043.38 1,380.40 1,775.44 3.805.55 1,307.26 Total Comprehensive Income for the period 1,120.40 1,774.33 2,752.21 852.08 Paid-up Equity Share Capital (32,02,350 Equity Shares of INR 10/- each & 8,00,000 Equity Shares of INR 100/- each) 40.02 40.02 40.02 40.02 40.02 Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation (1) Basic 19.57 27.99 44.33 68.76 21.29 19.57 27.99 44.33 68.76 21.29 (2) Diluted

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the guarter and year ended 31ST December 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEB (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of www. msei.com and on the Company's website at www.partapdenim.com

Date: 14.02.2023 Place: Kolhapur

For Partap Industries Limited Sudarshan Paul Bansal Chairman & Managing Director

CAPITAL TRUST LIMITED

Phone: 9716844571 Email: info@capitaltrust.in Web: www.capitaltrust.in

Capital Trust

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DEC 2022 Amount in Lakhs

New Delhi

The above financial results of the Company have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by Board of Directors of the

The Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, Bench-VI ('NCLT'), has approved the Scheme of Arrangement between Capital Trust Limited and its wholly owned subsidiaries Capital Trust Microfinance Private Limited and Capital Trust Housing Finance Private Limited ('Scheme') under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 vide their order dated January 23, 2023. Pursuit to the said Scheme, the assets and liabilities of the amalgamating companies (Capital Trust Microfinance Private Limited and Capital Trust Housing Finance Private Limited) were transferred to and vested with the Company with effect from the appointed date viz. April 01, 2021. The amalgamation being a common control transaction has been accounted for under the 'pooling of interest' method as prescribed by the Ind AS 103 (Business Combinations). Accordingly, the Scheme of Arrangement has been given effect from appointed date April 01, 2021 and accordingly previously published results have been reinstated

The above is an extract of the detailed format of Quarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and year to date Financial Results are available

Chairman and Managing Director

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 14-फरवरी-2023

www.readwnere.com

बोर्ड के आदेशानुसार हस्त0/-विशाल सिंघल (निदेशक) (डीआईएन:03518795)

(रुपये लाख में प्रति शेयर

आय को छोड़कर)

नौमाही समाप्ति

31.12.2022 31.12.2021

अलेखा परीक्षित

3,103.45

(1,457.86)

(1,457.86)

(1,445.66)

350.16

(41.29)

(41.29)

अलेखा परीक्षित

7.042.84

832.69

832.69

840.27

350.16

24.00

24.00

समेकित

समाप्त तिमाही

31.12.2021

अलेखा परीक्षित

2,228.13

(1.534.46)

(1,534.46)

(1.534.26)

350.16

(43.82)

(43.82)

31.12.2022

अलेखा परीक्षित

2,919.86

179.81

179.81

184.15

350.16

5.26

5.26

(CIN-L65923DL1985PLC195299) Registered Office: 205 Centrum Mall, Sultanpur, M G Road, New Delhi-110030

SI. No.	Particulars	Qtr Ended 31.12.2022 Unaudited	Qtr Ended 30.09.2022 Unaudited	Corresponding Qtr ended 31.12.2021 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2022 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2021 Unaudited	Financial Year ended 31.03.2022 Audited
1	Total Income from Operations	1,980.01	2,239.06	2,916.49	6,692.61	7,821.12	10,598.28
2	Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(481.93)	273.54	127.65	53.64	(1,650.28)	(1,417.28)
3	Net Profit/(loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(481.93)	273.54	127.65	53.64	(1,650.28)	(1,417.28)
4	Net Profit/(loss) for the period after Tax and Minority Interest (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(353.58)	204.35	93.09	40.12	(1,246.60)	(1,086.13)
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	(353.58)	204.35	93.09	40.12	(1,246.60)	(1,073.99)
6	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10 per Equity Share)	1,621.75	1,621.75	1,621.75	1,621.75	1,621.75	1,621.75
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		2				10,377.94
8	Earning per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinuing operations)						
	I. Basic:	(2.18)	1.26	0.57	0.25	(7.69)	(6.70)
	II. Diluted:	(2.18)	1.26	0.57	0.25	(7.69)	(6.70)

Company in their meeting held on 14th February 2023. The statutory auditors of the Company had audited these results.

to give effect of the said scheme. The Company is in the process of complying with the filing of the said order with statutory authorities.

on the websites of the Stock Exchange(s) i.e www.nseindia.com, www.bseindia.com, and the website of the Company at www.capitaltrust.in On behalf of the Board of Directors of Capital Trust Limited

Yogen Khosla

14th February 2023